



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1872]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2011/आश्विन 7, 1933

No. 1872]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2011/ASVINA 7, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2011

का.आ. 2261(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 की सं. का.आ. 2550(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अन्दर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

योजना जोन 'डी' में त्यागराज नगर में 65466.23 वर्ग मी. के भू-उपयोग का (i) "आवासीय" (780.03 वर्ग मी.) और (ii) मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क) (64686.20 वर्ग मी.) से सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियां) में परिवर्तन।

इन प्लानों की चारदीवारी का विवरण निम्नानुसार है :-

स्थिति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
योजना जोन "डी" में त्यागराज नगर	(i) 780.03 वर्ग मी.	"आवासीय"	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि)	उत्तर-आवासीय (मौजूदा पार्क) दक्षिण और पूर्व - त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पश्चिम-आवासीय (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ii) 64686.20 वर्ग मी. "मनोरंजनात्मक" (डिस्ट्रिक्ट पार्क)	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं ( सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि)	उत्तर-श्री गंगा नाथ मार्ग (24.38 मी. मार्गाधिकार) दक्षिण - चन्दु लाल बाल्मिकी मार्ग और नाला पूर्व : डिस्ट्रिक्ट पार्क पश्चिम-आवासीय ( उच्चतर माध्यमिक विद्यालय)	

[फा. सं. के-13011/3/2010-डी डी आई बी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2011

**S.O. 2261(E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 2550(E) dated, 13th October, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**Modification :**

The change of land use of 65466.23 sq.m. from (i) 'Residential' (780.03 sq.m.) and (ii) 'Recreational (District Park)' (64686.20 sq.m.) to 'Public and Semi-public facilities (Socio-Cultural activity)' at Thayagraja Nagar, in planning Zone 'D'. The boundary description of the plots are as under :—

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Thayagraja Nagar in planning Zone 'D'	(i) 780.03 sq.m.	'Residential'	Public and Semi-public facilities (Socio- Cultural activity)	North : Residential (Existing Park) South and East : Thayagraj Sports Complex West : Residential (Sr. Secondary School)
	(ii) 64686.20 sq.m.	'Recreational (District Park)'	Public and Semi-public facilities (Socio- Cultural activity)	North : Shri Ganganath Marg (24.38 m R/W) South : Chandu Lal Balmiki Marg and drain East : District Park West : Residential (Sr. Secondary School)

[F.No. K-13011/3/2010-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.